

Plot No. 21 & 22, Sector-6, Faridabad-121 006 (Haryana) INDIA Tel.: 91-129-2240411, 2306700 2306783

6th September, 2025

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051

NSE Symbol: SPLIL

Listing Department

BSE Limited

Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532651

Subject:

Copy of notice published in newspaper

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the extract of the newspaper advertisements published w.r.t. Notice of 34th Annual General Meeting and E-voting information of the Company in the following newspaper on 06th September, 2025-

- Business Standard (English Edition) a)
- Business Standard (Hindi Edition) b)

Please note that, the record date/cut-off date is September 22, 2025 for the members entitled to vote on resolutions proposed to be transacted at the ensuing AGM of the company which is scheduled to be held on Monday, 29th September, 2025.

Kindly take the same on records.

Thanking You

For, SPL Industries Limited

Vishal

Digitally signed by Vishal Srivastava Srivastava Date: 2025.09.06

13:13:29 +05'30'

Vishal Srivastava

(Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: Copy of Newspaper Advertisement.



INNOVATIVE CO-OPERATIVE URBAN BANK LTD. 22, 1st Floor Central Market, Community Center, Ashok Vihar, Delhi-Phone: 011-27131743, 27131744, 47022790, Fax: 011-27131743 Email: honovativebank@gmail.com website: www.icubank.in

IMPORTANT NOTICE

All the respected shareholders of Innovative Co-operative Urban Bank Ltd. are hereby informed that a Special General Body Meeting of the bank will be convened on 15th September 2025, Monday at 4.00 pm at the registered office of the Bank. All the members are cordially invited to attend the meeting on the above date at the appointed time and place

AGENDA OF MEETING

To consider and approve the Scheme of Merger of Innovative Co-operative Urban Bank Ltd., with Adarsh Mahila Mercantile Co-operative Bank Ltd. Muzaffamagar (UP 251001). Vice Chairma

Innovative Cooperative Urban Bank Ltd



SPL Industries Limited

CIN: L74899DL1991PLC062744 Regd. Office: 202, 2nd Floor, Vikramaditya Tower, Alaknanda Market, Kalkaii New Delhi- 110019 | Phone: 0129-4282375 E-mail: cs@spllimited.com, Website: www.spllimited.com

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the shareholders of SPL Industries Limited (CIN: L74899DL1991PLC062744) will be held on Monday or 29th, 2025 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Mean "OAVM"), at 11:00 A.M. in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchang Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ('SEBI Listing Regulations'), read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars") to transact the businesses set forth in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://emeetings.kfintech.com

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annua Report 2024-25 have been sent to all the Shareholders whose email IDs are registere with the Company / Depository Participant(s)/Company's Registrar and Share Transfe Agent (RTA). The aforesaid documents are also available on the Company's website www.spllimited.com, website of exchange i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.con and also on the website of the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. KFir

Technologies Limited viz. https://evoting.kfintech.com In accordance with regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, the company is sending a letter to the members whose email address is not registered with the RTA/Depository Participant(s), providing the weblink and QR code and exact path of the company's website from where the Annual Report for the Financial Year 2024-25 can be

n compliance with the Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to inform that it is ofering e-voting facility to all the Shareholders of the Company in respect of all the items to be transacted a the said Meeting. The company has engaged the services of KFin Technologies Limiter ("KFin") as the authorized agency to provide e-voting facility. The members are requested to follow the instructions comprising manner of e-voting and remote e-voting (for casting the vote) which have been detailed in the Notice of AGM

The facility for voting through electronic means will also be made available at the AGM and only those members, who are present at the AGM and have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will b eligible to vote during the AGM.

Information and instructions including the details of User Id and Password relating to e-voting have been sent to the Members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with Company/RTA/Depository Participant(s may generate login credentials by following the instruction given in the Notes to Notice C

The details of the remote e-voting are as under-

- Date and time of commencement of remote e-voting: September 25th, 2025, 10:00 A.M.
- Date and time of end of remote e-voting: September 28th, 2025, 05:00 P.M.

The remote e-voting shall not be allowed beyond September 28th, 2025 05:00 P.M. A person, whose name appears in the register of members/beneficial owners as on the cutoff date i.e. Monday, September 22™, 2025, shall only be entitled to avail the facility o remote e-voting or participation at AGM and e-voting during the AGM.

A person, who becomes member of the company after dispatch of Notice of the AGM an holding shares as on cutoff date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of AGM which is available on Company'

vebsite and KFin's website. The Members, who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may attend th AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any query regarding remote e-voting or technical assistance for VC/OAVM participation, members may contact Mr. Suresh Babu, an official of KFin Technologies Limited at the toll free No. 1800-345-4001 or write him at suresh.d@kfintech.com and may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of http://evoting.kfintech.com (KFin Website).

For, SPL Industries Limited

Place - Faridabad Date - September 05, 2025

Vishal Srivastav Company Secretar

ACME RESOURCES LIMITED CIN No.: 1655993DL1985PLC314861

Regd. Office: 984, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034, Phone: (011)27026766, Fax: 91-11 47008010

E-mail: acmeresources@gmail.com, Website: www.acmeresources.in NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Members of ACME RESOURCES LIMITED will be held on Tuesday, the 30th day of September 2025 at 10.00 A.M. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to facility the following business. ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Audited Standalone Balance Sheet as at March 31, 2025, Statement of Profit and Loss for the financial year ended on March 31, 2025, Cash Flow Statement for the financial year ended March 31 2025 and reports of Directors and Auditors thereon
- To receive, consider and adopt the Audited Consolidated Balance Sheet as a March 31, 2025, Statement of Profit and Loss for the financial year ended on March 31, 2025. Cash Flow Statement for the financial year ended March 31, 2025 and report of Auditors thereon.
- SPECIAL BUSINESS
- Appointment of Statutory Auditor Appointment of Secretarial Auditor

Notice of the AGM, setting out the business to transacted thereat, have been sent in electronic mode to those members who have registered their e-mai addresses and physical copy of the said notice in the permitted mode. The electronic transmission/physical dispatch of notice will be completed or September 05th, 2025.

In compliance with section 108 of the companies act, 2013 read with rule 20 of the companies (Management and Administration) rule, 2014, as amended and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosers Requirements) Regulation, 2015, the member are provided with the facility to cast their votes on resolutions proposed at the meeting by electronic means, from a place other than the Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'). The said facility will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Pursuant to SEBI circular for holding of the annual general meeting ('AGM') through VC/OAVM facility, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act 2013 (the 'Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'SEBI Listing Regulations') and MCA Circulars, the AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM hereinafter called as 'e-AGM'.

- The details relating to E-Voting in terms of said act and rules, are as under The date and time of commencement and end of remote E-voting: from 27th
- September 2025 (9.00 a.m.) till 29th September 2025 (5.00 p.m.). Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above
- The remote e-voting module shall be blocked by NSDI for voting thereafter. The cut-off date: September 23rd 2025, member holding shares as on the cut-off date, may cast their vote by remote e-voting.
- A person, who acquires shares and becomes a shareholder of the compan after the dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain their login-id and password by sending an e-mail mentioning their folio no. /DP ID no., to acmeresources@gmail.com or mdpldc@yahoo.com However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote evoting then existing user-id and password can be used for casting their vote.
- A person, whose name is recorded in the register of member or in the registe of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting
- Mr. Amit Choraria, Practicing Chartered Accountant (M. No. 066838) has been appoined by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting system or the date of the AGM, in a fair and transparent manner.
- Website address where the notice of the AGM id displayed: Compa acmeresources.in, NSDL: www.evoting.nsdl.com.
- 8. Contact details of the person's responsible to address the grievance: connected with E-Voting:

, 			
Particulars	National Securities Depository Limited (NSDL)	Maheshwari Datamatics Private Limited	
Name and Designation	Ms. Pallavi Mahatre – Senior Manager	Mr. Ravi Kumar Bahl	
Address:-	The Millenium second floor, 235/2A, A.J.C. Bose Road, Kolkatta-700020	23, R.N. Mukherjee Road, Kolkatta-700001	
Email ID :-	Evoting@nsdl.co.in	mdpldc@yahoo.com	
Phone No.	033-22814662	033-22482248	

Place : Delhi

Date: 04-09-2025

By order of the Board For ACME RESOURCES LIMITED Sd/- Amanpreet Kaur Company Secretary

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE OICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kur (East), Mumbai- 400051

Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059 Branch Office: 307/1, 1st floor, Bishnoi Tower, Mangal Pandey Nagar, Opposite Apex Tower, Meerut- 250004

Branch Office: 307/1, 1st floor, Bishnoi Tower, Mangal Panaey Nagar, upposite Apex Tower, Medical Whereas
The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of property/

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Loan Account Number	Description of property/ Date of Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	
1.	Harshika Mittal (Borrower), Rishab Mittal (Co-Borrower), LHMRT00001504909	Roof Property of Commercial Shop G F No. 38 & 39, With Roof Rights Situated at Mohalla Sarvat Gate Eastern, Muzaffarnagar Uttar Pradesh- 251315, Admeasuring Area 21.5 Sq. Mtrs. Bounded By- East: Vacant Roof At F.F Of Others, West: Other Property, North: Vacant Roof At F.F Of Others, South: Shop Of Harshika Mittal/ Date of Possession- 01/09/2025	17-06-2025 Rs. 66,624.8/-	Meerut
	Harshika Mittal (Borrower), Rishab Mittal (Co-Borrower), LHMRT00001505321	Roof Property of Commercial Shop G F No. 38 & 39, With Roof Rights Situated at Mohalla Sarvat Gate Eastem, Muzaffarnagar Uttar Pradesh-251315, Admeasuring Area 21.5 Sq. Mtrs. Bounded By- East Vacant Roof at F.F of Others, West: Other Property, North: Vacant Roof At F.F of Others, South: Shop of Harshild, Mittal / Date of Possession. 9/109/2025	17-06-2025 Rs. 14,01,537.42/-	Meerut

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security interest (Enforcement) Rules 2001. Authorized Office ICICI Home Finance Company Limited Date : September 06, 2025 Clace: Meerut

B FINSERV

BAJAJ FINANCE LIMITED

Registered Office: Bajaj Finance Limited, Off Pune-Ahmednagar Road, Viman Nagar, Pune - 411014
Branch Office: Bajaj Finance Ltd, Unit No 3A, 3rd Floor, Pawa Grand, Prashant Vihar, Sector 14, Rohini, Delhi-110085 Demand Notice Under Section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

Undersigned being the Authorized Officer of M/s Bajaj Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s) Co-Borrower(s) who have falled to discharge their liability i.e., defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there on for Home loan(s)/Loan(s) Against Property advanced to them by Bajaj Finance Limited and as consequence the loan(s) have become Non Performing Assets (N.P.A's). Accordingly, notices were issued to them under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforement of Security interest Act, 2002 and rules there to on their last known addresses, however the same have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.

Loan Account No./Name of the Borrower(s) Mortgagor(s)Guarantor(s)	Description of Secured Immovable Property	Demand Notice Date and Amount
LAN: 4010HL19696604 1. Ajay Barua (Borrower) 2. Jhuma Barua (Co-Borrower) Both At:- 226-B Pocket-C, Sidharth Extn, New Deihi, Deihi - 110014	All that piece and parcel of DDA Free Hold (SFS) Flat No. 226- A, Ground Floor, Pocket-C, Cat-Mig, Covered/Plinth Area 90 Sq. Mtr. Siddhartha Extension, New Delhi-110014 Bounded as: - East: Flat No 227, West: Flat No 225, North: Open, South: Road.	95/08/2025 & Rs.1,04,68,696/- (Rs One Cron Four Lakh Sixty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Eight Only) as on 05/08/25
LAN: 401SHL07116652 & 401SHL42353061 & 401SHL17515665 & 401SHL07116433 Anamika Jha (Borrower) At: -B-303 Hindon Apt Vasundhra Enclave, Delhi-110096	All that piece and parcel of the Residential Flat No. C-501, 4th Floor, (Without Roof Rights), Having Super Area Of 1725.94 Sq. Feet I.E., 160.34 Sq. Meter, Covered Area Of 115.32 Sq. Meter, One Covered Care Parking, "Supertech-Icon Celebrity Heights' Built On Plot No. C Situated At Residential Colony, Nyay Khand-I, Indirapuram Ghaziabad. Bounded as:- East: Patrakar Vihar, West: 12 Meter Wide Road & Ews Flats, North: D Open Plot And Ews Flats, South: 120 Feet Wide Road.	05/08/2025 & Rs.54,09,443/- (Rupees Fifty-Four Lakh Nine Thousand Four Hundred and Forty-Three Only) as on 05/08/25
LAN: H581ECM0392205 & H401FBL0865957 1. Saswatt Roy (Borrower) 2. Arup Krishna Roy (Co-Borrower) Both At: - House No. 3,4 2nd Floor, Pkt-6, Sec-25, Rohini Delhi - 110085 3. Icon Express Service (Co-Borrower) At: - Loon Express Service House No134 A Block- Ad East Shalimar Bagh Delhi-110088	Property 1: All that plece and parcel of the entire second floor with out roof rights in built-up property Bearing No. 3, Pocket.5, Sector.25, Area Measuring 25.90 Sq. Mtrs., Situated At Rohlini Residential Scheme Delhi. Property 2: All That Piece And Parcel Of The Entire Second Floor Withoutroof Rights in Built-Up Property Bearing No. 4, Pocket.5, Sector.25, Area Measuring 25.90 Sq. Mtrs., Situated At Rohlini Residential Scheme Delhi.	20/08/2025 & Rs.38,51,484/- (Rupees Thirty-Eight Lakh Fifty-One Thousand Four Hundred and Eighty-Four Only) as on 20/08/25

Snailmar Bagin John 1 10060 In Committee of the Committee

Sd/- Authorised Officer, Bajai Finance Limite Date : 06-09-2025, Place : DELHI

SYMBOLIC ROSSESSION NOTICE (PICICI Home Finance) Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051

Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059, Branch Office: Premises No. 14, 1st Floor, Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi- 110092, Branch Office: 2nd Floor, Vishwakarma Comp Plot No. 17/18, Behind Yashoda Hospital, Kaushambi, Ghaziabad- 201010, Branch Office: 307/1, 1st Floor, Bishnoi Tower, Mangal Pandey Nagar, Opposite Apex Tower, Meerut- 250004, Branch Office: Shop No 9, Ground Floor, GKS Palace, Ayub Khan- Choupla Road 63-64, Civil Lines, Bareilly- 243001

Whereas
The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest Finorcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

23-05-2025

Rs. 4,48,891.7/-

Bareilly

available, to reace in the secure assets.					
Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Loan Account Number	Description of property/ Date of Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)		
1.	Gaurav Bidhuri (Borrower), Sweta. (Co-Borrower), LHDLX00001491407	Commercial Kiasks/ Shop No. Chilgk-2, Block- Lagerstroemia Estate. Vide Allotment No. CSK- 13/201300002, Situated At Sector-PHI-CHI, Greater Noida, District Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh- 201310. Hoving its Area 9.38 Sq. Mtrs. Bounded As:- North East- As. South East- Per. North West-Lease. South West- Plan/ Date of Possession- 01-Sep-2025	17-06-2025 Rs. 7,32,312/-	East Delhi- Laxmi Nagar	
2.	Shadab Ahmad Khan (Borrower), Arifa Khanam (Co-Borrower), LHGHZ00001526076	Built-Up Third Floor (With Roof Rights), Back Side Portion, Property Bearing Southern & Northern Portion New No. No-214, Old No. WZ-NA-21, Glai No. 07, Part of Khasra No. 22/1, Situated in Village Khyala, Now Colony Known As Vishnu Garden Extn. New Delhi-110018. Admeasuring Area 100 Sq. Yrds. With One Car And One 2 Wheeler Scooter Parking in The Stilt Floor, Bounded By-East: Front Side Flat And Then, West: Gali 10ft Wide, North: Other Property, South: Other Property/ Date of Possession-01-Sep-2025	17-06-2025 Rs. 1,08,147.88/-	Ghaziabad (Kaushambi)	
3.	Shadab Ahmad Khan (Borrower), Arifa Khanam (Co-Borrower), LHGHZ00001526079	Built-Up Third Floor (With Roof Rights), Back Side Portion, Property Bearing Southern & Northern Portion New No. No-214, Old No. WA-NA-21, Glai No. 07, Part of Khasra No. 22/1, Situated in Village Khyala, Now Colony Known As Vishnu Garden Extn. New Delhi-110018. Admeasuring Area 100 Sq. Yrds. With One Car And One 2 Wheeler Scooter Parking in The Stilt Floor, Bounded By-East: Front Side Flat And Then, West: Gali 10ft Wide, North: Other Property, South: Other Property/ Despriy/Dession-01-5ep-2025	17-06-2025 Rs. 37,89,679/-	Ghaziabad (Kaushambi)	
	Abdul Subhan (Borrower), Miskina (Co-Borrower), LHMRT00001566006	Residential Plot, Khasra No. 1698M, Situated In Village Gram Purkazi (Baharhadood), Pargana Purchawar, Teshil & Distrct Muzaffarnagar, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251315. Admeasuring Area 79.68 Sq. Mtrs. Bounded By- East Land of Alam/ 16.6ft, West: GT Road/ 15.3ft, North: Plot of Irfan/ 55.6 Ft, South: Land of Other/ 52.7 Ft/ Date of Possession- 01-Sep-2025	17-06-2025 Rs. 39,72,899/-	Meerut	
5	D	4 51-4 5-4 64 (4	23-05-2025	Rareilly	

1 Plot Part Of Khasra No. 270 Situated in Mohalla Mewat Gram Mugra Meergani Pargana Sirauli Rehsi Meergani District Bareilly-243504. 1 Bareilly Vitra Pradesh-243505. Bounded By-North: Plot of Virendra Girl, South: Plot of Seller, East: 12 Feet Wid Road, West: Nahar/ Date of Possession-02-Sep-25 The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : September 06, 2025 Place: Greater Noida, New Delhi, Bareilly Authorized Office ICICI Home Finance Company Limited

Roto pumps since 1968 >>>

5. Reeta Devi (Borrower), Ashvani Pandey

Co-Borrower), HBAR00001394769

ROTO PUMPS LTD.

Regd. Off.: Roto House, Noida Special Economic Zone, Noida — 201305 (U.P.) CIN: L28991UP1975PLC004152

Tel.: +91 120 2567902-05, Fax +91 120 2567911 Email: investors@rotopumps.com Website: www.rotopumps.com

INFORMATION REGARDING 50TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Roto Pumps Limited ("the Company") will be held on Monday, September 29, 2025 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM which is being sent electronically for convening the AGM of the Company, in compliance with the Companies Act. 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and bisclosure requirements) Regulations, 2015 read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated September 19, 2024 and circular dated May 05, 2020 and other relevant circulars issued from time to time (MCA Circulars) and SEBI Circular dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being, Circular dated October 03, 2024 ("SEBI Circulars") (collectively referred as the "relevant circulars").

in compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report which inter-alia includes Standalone and Consolidated Financial Statements along with the Board's Report and the Auditors' Report thereon for the financial year 2024-25, will be sent electronically by the Company to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) / RCMC Share Registry Pvt. Ltd., the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and the same will also be available at the website(s) of the Company at https://www.rotopumps.com/. National Securities Depository limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com BSE Limited at (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at (www.nseindia.com). The detailed procedure for attending the AGM will be provided in the Notice of AGM.

Registration of E-mail address and Bank details The Members of the Company who have not registered their e-mail address and/or updated their bank account mandate for receipt of

ividend are requested to follow the below instructions: The Members may note that SEBI has made it mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, choice of nomination, contact details, bank account details and specimen signatures for their corresponding folio numbers and members may get the said details registered / updated with the RTA of the Company by submitting the prescribed form ISR-1 along with the other vant forms at email <u>investor.services@rcmc.com</u> or to the Company at <u>investors@rotopumps.com</u>.The dividend s through electronic mode for the concerned folios only upon registering the aforesaid details if the same is not registered earlier.

Members holding shares in dematerialised mode kindly register / update their details with their Depository Participant (DP). Alternatively you may also temporarily update their email addresses by writing to the Company or the RTA on the investors@rotopumps.com o investor.services@rcmc.com respectively, by providing details such as DP ID - Client ID, Name, client master or copy of Consolidate Account Statement, self-attested copy of the PAN card, Mobile no. and email address

nner of casting vote(s) through e-voting:

The Company is providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on all resolutions which are set out in the Notice of the AGM. Shareholders have the option to cast their votes using the remote e-voting facility prior to the AGM or e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting at the AGM will be provided in the notice of the AGM.

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Monday, September 22, 2025. The remote e-voting shall commence on Friday, September 26, 2025 (9:00 a.m. IST)

The remote e-voting shall end on Sunday, September 28, 2025 (5:00 p.m. IST) Dividend and Book Closure:

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on May 17, 2025, recommended payment of final dividend of Rs. 0.80 per Equity Share of face value Rs. 1/- each for the financial year 2024-25, subject to approval of the Members at the ensuing AGM to the shareholders holding shares on July 11, 2025 (being the Record date fixed for the payment of dividend). The register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, September 22, 2025 to Monday, September 29, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 50th AGM.

In terms of the provision of the Income Tax Act. 1961. ("IT Act"), dividend income will be taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rate from the dividend paid. Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per IT Act with their DP or in case shares are held in physical form, with the Company or RTA and submit the requisite documents or declarations at email investor.services@rcmc.com or investors@rotopumps.com. n case of any query, a shareholder may send an email to the RTA of the Company at <u>investor services@rcmc.com</u>

FORDTO PUMPS LTD

ASHWANI K. VERMA **COMPANY SECRETARY**

SBFC Finance Limited

Registered Office: Unit No.-103, 1st Floor, C&B Square, Sangam Complex, CTS No.95A, 127, Andheri Kurla Road, Village Chakala, Andheri (E), Mumbai-400059 | Telephone: +912267875300 | Fax: +91 2267875334 | www.SBFC.com | Corporate Identity Number: U67190MH2008PTC178270

Public Notice

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by SBFC Finance Limited on 23.09.2025 at 10:30 am at below Branch address. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these borrowers. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various Customers mentioned below with branch name.

Faridabad Branch Address: SBFC Finance Limited, D-2, 1St Floor, Near 1-2 Chowk, N.I.T.,Nh -2, Faridabad-121001457, FARIDABAD, AP00112777, AP00187475, AP00270260, AP00317732, AP00460510, AP00486467, AP00594157, AP00595767, AP00597149, AP0060388, AP00637067, AP00637832, AP00653919, AP00663005, AP00665116, AP00667124, AP00668188, AP00678779, AP00678798, AP00684505, AP00710279, AP00758527, AP00777687

Ghaziabad Branch Address: SBFC Finance Limited, B2, Basement, Rdc Raj Nagar, Ghaziabad -201002, GHAZIABAD, AP00607466, AP00649428, AP00672052, AP00673455, AP00675553, AP00688636, AP00697219, AP00720576, AP00721657,

Gurugram Branch Address: SBFC Finance Limited, First Floor, 342/9, New Railway Rd, Subhash Nagar, Sector 8, Gurugram Haryana 122001, GURUGRAM, AP00385375, AP00386447, AP00439854, AP00514136, AP00556981, AP00588165, AP00679696, AP00687055, AP00687213, AP00690109, AP00691558, AP00698344, AP00759044

Hapur Branch Address: SBFC Finance Limited, First Floor, Above Pc Jewellers, Garah Pargana, Garah Road, Tehsil & District Hapur 245101, (UP), HAPUR, AP00351008, AP00637861, AP00648795, AP00694290

Kotla Mubarakpur Branch Address: SBFC Finance Limited, A-86, 1St Floor, Arjun Nagar , Bhisham Pitahma Marg, Opp Defence Colony, New Delhi 110003, KOTLA MUBARAKPUR, AP00345895, AP00546177, AP00635875, AP00674565, AP00675484, AP00675518, AP00684903, AP00686193, AP00686506, AP00686677, AP00691575, AP00692358, AP00720463,

Laxmi Nagar Branch Address: SBFC Finance, Property No. 1/10 & 1/12, 1st Floor, Lalita Park, Main Vikas Road, Near Laxm Nagar Metro Station, Opp. Piller No. 27, Laxmi Nagar 110092, LAXMI NAGAR, AP00130926, AP00183265, AP00392102, AP00449766, AP00457331, AP00475607, AP00484500, AP00532813, AP00556102, AP00617524, AP0061765, AP00656988, AP00686040, AP00692227, AP00695055, AP00726153, AP00727080, AP00730644, AP00759595

Noida Branch Address: SBFC Finance Limited, Pillar No 117 Opposite Hbd Financial Services Main Dadri Road Sector 101 Dist. Gautam Budh Nagar, Noida 201304 (Up) Noida, NOIDA, AP0054628, AP00654174, AP00655752, AP00682281, AP00683791, AP00685527, AP00686112, AP00690711, AP00704461, AP007046261 Panipat Branch Address: SBFC Finance Limited, Plot No. 946, Main Gt Road, Near Railway Road, Above Vodafone Store,

Panipat - 132103, PANIPAT, AP00345722, AP00447633, AP00529125, AP00666946, AP00679053, AP00683451, AP00686107 AP00688830, AP00691772, AP00698741, AP00699592, AP00702350, AP00709265, AP00711771, AP00712866, AP00723187,

Agra Branch Address: SBFC Finance, C1/1, First Floor, Hall No - 4, Bhawana Multiplex, Sec-13, Aawas Vikas, Agra 282007, Agra AP00617453, AP00617468, AP00661027, AP00675731, AP00682931, AP00684378, AP00687944

BAREILLY Branch Address: SBFC Finance, SA-57/94, D.D. Puram, Bareilly 243001. BAREILLY, AP00201796, AP00438439, AP00459511, AP00542402, AP0056672, AP00565370, AP00596378, AP00666029, AP00676615, AP00686152, AP00686910, AP00707998, AP00712707, AP00722848, AP00758418 HALDWANI Branch Address: SBFC Finance, 1st Floor, Nainital Road-Bhotla Paraw, Yes Bank Building, Opposite Krishna

Hospital, Haldwani 263139, HALDWANI, AP00328894, AP00334947, AP00346521, AP00399816, AP00420955, AP00430184, AP00511874, AP00516138, AP00557997, AP00558660, AP00584491, AP00596939, AP00598586, AP00599607, AP00606531, AP00606891, AP00611709, AP00639855, AP00661688, AP00666053, AP00666322, AP00671886, AP00673937, AP00674283, AP00679079, AP00682994, AP00684230, AP00684529, AP00689304, AP00690820, AP00699486, AP00758841, AP00759096

MATHURA Branch Address: SBFC Finance, 2nd Floor, Ambey Crown, Opp. B.S.A. Degree College, Bhuteshwar Road, Mathura, MATHURA, AP00358114, AP00399164, AP00426542, AP00485941, AP00515000, AP00549112, AP00561809, AP00566152, AP00585406, AP00594551, AP00615859, AP00626813, AP00637406, AP00649274, AP00650472, AP00653060 AP00664566, AP00665553, AP00672477, AP00673311, AP00673326, AP00673385, AP00684455, AP00687134, AP00689512 AP00690675

Dehradun Branch Address: SBFC Finance Limited, Shop No. 4, Ground Floor, Doon Plaza, Gandhi Road, Prince Chowk, Dehradun 248001, Dehradun, AP00528241, AP00529853, AP00563123, AP00663797, AP00673339, AP00677436, AP00692370,

Haridwar Branch Address: SBFC Finance Limited, First Floor, New Market, Gurudwara Road, Lodha Mandi, Near Railway Police Chowki, Jwalapur – 249407 (Haridwar), HARIDWAR, AP00329517, AP00363385, AP00520512, AP00522727, AP00531129, AP00558540, AP00567391, AP00606503, AP00666025, AP00666034, AP00672037, AP00679113, AP00684801 AP00685531, AP00686758, AP00687346, AP00690031, AP00691731, AP00691749, AP00693393

Saharanpur Branch Address: SBFC Finance, First floor, Kapoor complex, Gill colony, Court Road, Opp. Parsvanath Plaza, Saharanpur 247001, SAHARANPUR, AP00376789, AP00383725, AP00385143, AP00400444, AP00423740, AP00428393, AP00552522, AP00586728, AP00586955, AP00594241, AP00630934, AP00663728, AP00663903, AP00665599, AP00665678, AP00669292, AP00669126, AP00607277, AP00672471, AP0067487, AP00676819, AP00608939, AP00609393, AP0060933, AP00609393, AP00609393, AP00609393, AP00609393, AP00609393, AP00609393, AP00609393, AP00609393, AP00600372, AP00600393, AP006000393, AP006000393, AP006000393, AP006000393, AP006000393, AP006000393, AP006000393, AP006000393, AP006000393, AP006000393

AP00674000, AP00674538, AP00674789, AP00677967, AP00679830, AP00687833, AP00702552, AP00703705, AP00709708 AP00713518.AP00759242 For more details, please contact SBFC Finance Limited Contact Number(s): 18001028012 (SBFC Finance Limited reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice.)

CFM ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

CIN: U67100GJ2015PTC083994
Address: 1st Floor, Wakefield House, Sprott Road, Ballard Estate, Mumbal 400038 DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002 R/W RULE 3(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2021

Finova Capital Private Limited. has vide a Deed of Assignment dated 21st March 2025, assigned in favor of CFM Ass uction Private Limited, inter alia, the debt due and payable by you/all along with all its right, title, interests, benefits, under/i respect of your captioned loan account/s/agreement along with the underlying security/les and security interest created in respect of immovable property/les for repayment of the debt. Now this notice is issued Under Section 13(2) of the Securitizations and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, ("The Act") read with rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The undersigned is the Authorized Officer of the CFM Assets Reconstruction Private Limited ("CMFARC") under the Securitizations and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. In xercise of powers conferred under the Section 13 (12) of the Act read with rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued a Demand Notice under section 13 (2) of The Act, calling upon the following borrower(s), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given once again, to the Borrowers/ Co Borrowers/ Mortgagors to pay CFMARC, within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice, from the date(s) mentioned below

Details of Properties / Address of Secured Assats to be Enforced Secured Assats to the Enforced Secured Assats to be Enforced Secured Assats to be Enforced Secured Assats to be Enforced Secured Secured Secured Assats to the Enforced Secured Secur		ill the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrowers/ Co Borrowers/ Mortgagors. As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to			
(Borrower), Yusuri (Guarantor) Rupees Four Lacs Eighteen Thousand One Hundred Fifty Negar, UP. 201310 Admeasuring 3805qt Nagar, UP. 201310 Admeasuring 3805qt	Name of Borrower/Guarantor (s) /	Date and Amount of Demand			
(Borrower), Sohan Lal (Co- Borrower) Bimia (Co- Borrower) Rupees Four Lacs Fifty Two Thousand Two Hundred Sixty Nine Orly As On 31.03.2025 (Loan A/C No.) 5018954, Kushal Pal (Borrower), Rajin Ibevi (Co- Borrower), Girraji Devi (Co- Borrower), Raj Kumar (Borrower) Mortgagor), Gayfree Devi (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5032961, Shri Krashna (Borrower) Mortgagor), Gayfree Devi (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5032961, Shri Krashna (Borrower) Mortgagor), Gayfree Devi (Co- Borrower) Ackshardham Colony Part 3, Block B, Village Budh Nagar, Up 203007 Admeasuring 4008cft (Loan A/C No.) 503329, Kamal (Borrower), Seema (Co-Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5037675, Deepak Kumar Mistry (Borrower) Mortgagor), Subhadra Mistry (Borrower) Mortgagor), Subhadra Mistry (Borrower) Mortgagor), Subhadra Mistry (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Abida (Co-Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Rameshwer (Co-Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6001735, Prempal (Borrower), Urmila Devi (Co-Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6001735, Prempal (Borrower), Urmila Devi (Co-Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6001735, Prempal (Borrower), Urmila Devi (Co-Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004735, Prempal (Borrower), Urmila Devi (Co-Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004735, Prempal (Borrower), Urmila Devi (Co-Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004735, Prempal (Borrower), Urmila Devi (Co-Borrower) Mortgagor), Priyanka Kumari (Borrower), Urmila Devi (Co-Borrower) Mortgagor), Priyanka K	(Borrower/ Mortgagor), Sagufta (Co-	Rupees Four Lacs Eighteen Thousand One Hundred Fifty	Plot Located At Khasra No. 76, Village Jalpura, Pargana/Tehsil Dadri, District Gautam Budh Nagar, UP. 201310 Admeasuring 360Sqft		
Rupees Five Lacs Sixty One Thousand Eight Hundred Fifty Seven Only As On 31.03.2025	(Borrower), Sohan Lal (Co- Borrower),	Rupees Four Lacs Fifty Two Thousand Two Hundred Sixty	Village Baragaon, Near Devi Mandir, Tehsil & Distt. Karnal Haryana 132023 Admeasuring 800Sqft		
(Loan A/C No.) 5037675, Deepak Kumar Mistry (Borrower) Mortgagor), Subhadra Mistri (Co- Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5037675, Deepak Kumar Mistry (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5037675, Deepak Kumar Mistry (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5037675, Deepak Kumar Mistry (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5037675, Deepak Kumar Mistry (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5037675, Deepak Kumar Mistry (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 5043128, Riyazuddin (Borrower), Abida (Co- Borrower) (Borrower), Abida (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Rameshwer (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Genewer) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Urmila Devi (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 6004320, Parveen Kumar (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004817, Ashok Kumar (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 6004817, Ashok Kumar	(Borrower), Rajni Devi (Co- Borrower), Girraji Devi (Co- Borrower), Raj Kumar	Rupees Five Lacs Sixty One Thousand Eight Hundred Fifty	Part Of Khata Khatoni No. 686, Gata No. 163, Village Sharifpur Bhansroli, Pargana Agota, Tehsil And District Bulandshahr, Up 203001 Admeasuring 400Sqft		
Rupees Three Lacs Fifty Five Thousand Three Hundred Eighty Two Only As On 31.03.2025 (Loan A/C No.) 5037675, Deepak Kumar Mistry (Borrower/ Mortgagor), Subhadra Mistri (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5043128, Riyazuddin (Borrower), Abida (Co- Borrower/ Mortgagor) (Loan A/C No.) 5043737, Sandeep Kumar (Borrower), Rameshwer (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Rameshwer (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Rameshwer (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Rameshwer (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5045735, Prempal (Co Borrower) (Loan A/C No.) 6004320, Parveen Kumar (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004320, Par	(Borrower/ Mortgagor), Gaytree Devi (Co-	Rupees Five Lacs Sixty Six Thousand Two Hundred Thirteen	Prop No. B2/43, Part Of Khasra No. 34, Akshardham Colony Part 3,Block B, Village Haldoni, Pargana/Tehsil Dadri, District Gautam Budh Nagar, Up 203207 Admeasuring 540Sqf		
Mistry (Borrower/ Mortgagor), Subhadra Mistri (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 5043128, Riyazuddin (Borrower), Abida (Co- Borrower/ Mortgagor) (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Rameshwer (Co- Borrower/ Mortgagor), Gurdeep Co- Borrower/ Mortgagor), Gurdeep Co- Borrower/ Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004320, Perveen Kumar (Borrower), Urmila Devi (Co- Borrower/ Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004320, Parveen Kumar (Borrower) Mortgagor), Priyanka Kumari (Co- Borrower) (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 6004320, Parveen Kumar (Borrower) Mortgagor), Priyanka Kumari (Co- Borrower) (C	(Borrower), Seema (Co- Borrower/	Rupees Three Lacs Fifty Five Thousand Three Hundred Eighty	House Situated At Village Kohand, Near Govt. Chopal, Tehsil Gharaunda, Distt. Karnal Haryan 132114 Admeasuring 751Sqft		
Rupees Five Lacs Seventy Nine Thousand Two Hundred Ninety Two Only As On 31.03.2025 (Loan A/C No.) 5045737, Sandeep Kumar (Borrower), Rameshwer (Co- Borrower), Reena (Co Borrower), Reena (Co Borrower), Urmila Devi (Co- Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6001735, Prempal (Borrower), Urmila Devi (Co- Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004320, Parveen Kumar (Borrower) Mortgagor), Priyanka Kumari (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 6004320, Parveen Kumar (Co- Borrower) (Co- Borrower) (Loan A/C No.) 6004321, Parveen Kumar (Co- Borrower)	Mistry (Borrower/ Mortgagor), Subhadra	Rupees Five Lacs Eighty Thousand Six Hundred Fifty			
(Borrower), Rameshwer (Co- Borrower) Mortgagor), Gurdeep Co- Borrower), Reena (Co Borrower) (Loan A/C No.) 6001735, Prempal (Borrower), Urmila Devi (Co- Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004320, Parveen Kumar (Borrower) Mortgagor) (Loan A/C No.) 6004320, Priyanka Kumari (Co- Borrower) (Co- Borr	(Borrower), Abida (Co-Borrower/	Rupees Five Lacs Seventy Nine Thousand Two Hundred Ninety	House At Part Of Khasra No. 517 And 518, Mohalla Rafiq Nagar, Pargana/Tehsil/District Hapur, Up 245101 Admeasuring 504Sqft		
(Borrower), Urmila Devi (Co-Borrower) Mortgagor) Rupees Four Lacs Sixty Seven Thousand Six Hundred Twenty Eight Only As On 31.03.2025 (Loan A/C No.) 6004320, Parveen Kumar (Borrower) Mortgagor), Priyanka Kumari (Co-Borrower) Rupees Four Lacs Sixty Seven Thousand Six Hundred Twenty Eight Only As On 31.03.2025 27.05.2025 Rs. 5,61,207/- Rupees Five Lacs Sixty One Thousand Two Hundred Seven Only As On 31.03.2025 (Loan A/C No.) 6004817, Ashok Kumar 27.05.2025 Rs. 2,84,485/- Plot No9, Part Of Gata No72 A, K, B & 72 A	(Borrower), Rameshwer (Co- Borrower/ Mortgagor), Gurdeep Co- Borrower), Reena	Rupees Two Lacs Eighty Six Thousand Seven Hundred Fifty	House Situated At Near Dhana Kibaithak, Near Gurudwara, Village Nagal, Sub Tehsilsiwan, Disi Kaithal Haryana, 136033 Admeasuring 436Sqf		
(Borrower/ Mortgagor), Priyanka Kumari (Co- Borrower) Rupees Five Lacs Sixty One Thousand Two Hundred Seven Only As On 31.03.2025 Rupees Five Lacs Sixty One 35//13/2(0-16) Property Waka Dhanora Jag Tehsil Indri, & Distt. Karnal Admeasuring Tehsil Indri, & Distt. Karnal Admeasurin	(Borrower), Urmila Devi (Co- Borrower/	Rupees Four Lacs Sixty Seven Thousand Six Hundred Twenty	House Situated At Ram Vihar Colony Gram- Amaria, Pargana-Jahanabad, Tehsii & District Pilibhit (U.P) 262121 Admeasuring 6691Sqft		
	(Borrower/ Mortgagor), Priyanka Kumari	Rupees Five Lacs Sixty One Thousand Two Hundred Seven	Khewat No-225, Khatoni No-273, Khasra No- 35//13/2(0-16) Property Waka Dhanora Jagir, Tehsil Indri, & Distt. Kamal Admeasuring 7591Sqft		
Mortgagor), Sanjay Kumar (Co- Borrower), Kapil Kumar (Co Borrower) Thousand Four Hundred Eighty Five Only As On 31.03.2025 Distt Aligarh. Admeasuring 1672.2 Sqft	(Borrower), Agrawati (Co- Borrower/ Mortgagor), Sanjay Kumar (Co- Borrower),	Rupees Two Lacs Eighty Four Thousand Four Hundred Eighty	Plot No9, Part Of Gata No72 A, K, B & 72 A, I Situated Atbhikampur, Pargana & Tehsil- Koil, Distt Aligarh. AdmeasurIng 1672.2 Sqft		

Five Only As On 31.03.2025 if the said Borrower/s shall fail to make payment to CFMARC as aforesaid, CFMARC shall proceed against the above secured asset under the section 13 (4) of the Act and applicable rules, entirely at the risks of the said Borrower(s) as to costs and consequences. The porrower/s are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CFMARC. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules mad hereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

27.05.2025 Rs. 3,79,147/-

Rupees Three Lacs Seventy Nine

Thousand One Hundred Forty

Seven Only As On 31.03.2025

27.05.2025 Rs. 3.97.285/-

Rupees Three Lacs Ninety Sever

Thousand Two Hundred Eighty

Authorised Office **CFM Asset Reconstruction Private Limited** [Acting in its capacity as Trustee of CFMARC Trust - 159]

So Tulsi Ram Thana 56 Kurukshetra Thana

Harvana 136030 Admessuring 100Soft

House Situated At Near Main Gurudwara. Village

Rattak, Tehsil- Assandh, Distt- Karnal, Harvana 132039. Admeasuring 568Sqft

Place : Haryana/Uttrakhand/UP

(Loan A/C No.) 6005074, Raghubir Singh

Loan A/C No.) 6006280, Gurvinder Singh

Borrower/ Mortgagor), Sandeep Kaur (Co-

rower/ Mortgagor), Kamlesh Devi (Co-

Place: Noida

Date: 05.09.2025

भारत कार्पेट्स <u>लिमिटेड</u> पंजीकृत कार्यालयः एस-2/डी, द्वितीय तल, शॉप कम फैसिलिटी पॉकेट-ए, सेक्टर-3, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक परिसर, बवाना, नई दिल्ली-110039

वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि **मारत कार्पेट्स लिमिटेड** के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, अर्थात एस-2/डी, द्वितीय तल, शॉप कम फैसिलिटी पॉकेट-ए, सेक्टर—3, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक परिसर, बवाना, नई दिल्ली—110039 में निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन हेतु आयोजित की जाएगी:

- 1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन ऑडिटेड वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों, सिंघल मट्टा एंड कंपनी; चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 001288N) की पुनर्नियुक्ति पर विचार करना।
- विचार करना।
- बोर्ड के आदेशानुसार

DIN: 00049518

COLAB PLATFORMS LIMITED CIN: L65993DL1989PLC038194

Registered Office: Innov8 CP2 44, Backary Portion, Regal Building, New Delhi, Delhi – 110 001. Contact No: +91 8828865429

Email: cs@colabplatforms.com | Website:www.colabplatforms.com

Notice is hereby given that the 36th AGM of the members of COLAB PLATFORMS LIMITED ("the Company") will be held on Saturday, 27.09.2025 at 11:00 A.M. IST through VC/OAVM, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM: All the members are hereby informed that:

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

- The Company has completed dispatch of the Notice of AGM to the Members through
- permitted mode on 05.09.2025. The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by CDSI
- and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the AGM shall be 20.09.2025.
- 26.09.2025 (05:00 PM), member may also cast their votes at the time of AGM. The results declared along with scrutinizer report within the prescribed period shall be displayed on the Company's Website and also communicated to the stock exchange. Members are requested to note that in case you have any queries or issues regarding e voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800 22 55 33 or send a request at

By Order of the Board For Colab Platforms Limited

Mukesh Jadhay

DIN: 09539015

Directo

Date: 05.09.2025 Place: New Delhi

> AMD Industries Limited CIN: L28122DL1983PLC017141

Regd. Office: 18, Pusa Road, First Floor, Karol Bagh, New Delhi-110005 Tel No: 011–46830202 site: www.amdindustries.com Email id: investor@amdindustries.com NOTICE OF THE 42⁻¹ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that The 42nd Annual General Meeting (AGM) of the AMD INDUSTRIES LIMITED (the Company) will be held on Tuesday, 30th September 2025 at 03:00 p.m. IST through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM). In Compliance with General Circular 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporation Affairs (MCA) and SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities & Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars') and all other applicable laws, to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting. Companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM, without the physical presence of member at common venue hence, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 14th August, 2025.

2. In compliance with the circulars, electronic copies of the notice of AGM and Annual Report 2024-25 will be sent to all the members whose E mail ids are registered with the companies/ Depositary participant. These documents are also available on the website of the Company, and website of Stock Exchanges and on the website of Bigshare Services Private Limited. The date of completion of dispatch of Notice of 42nd

Annual General Meeting is on or before 06th September, 2025. Members holding shares either in physical form or dematerialised form as on the cut off date 23rd September 2025 may caste the vote electronically in the business as set out in the Notice of AGM, through the electronic voting system of Big Share Services Private Limited (remote-e-voting). Members are hereby informed that

1. The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through remo voting or e-voting system at the AGM.

The remote e-voting period commences on September 27, 2025 (9:00 am IST) and ends on September 29, 2025 (5:00 pm IST).

The cut off date for determining the eligibility to vote by remote-evoting or e-voting system at the AGM shall be 23 September 2025 Remote e-voting module will

be disabled on September 29, 2025 (5:00 pm IST). Any person who has acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23.09.2025 may obtain the login ID and password by sending a request at https://ivote.bigshareonline.com or ivvestor@amdindustries.com However, if already registered with NSDL/CDSL for remote e-voting then they can use their

existing user ID and password for casting your vote. Member may note that: a) once the votes on a resolution are cast by the me the members shall not be allowed to change it subsequently. b) The facility for voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM, c) The members who have cast their votes through remote e-votin prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and d) Only person whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

The manner of voting remotely for member holding shares in addresses is provided in the notice of AGM. The notice is also available on the website of the Company i.e www.amdindustries.com.

Members who have not registered their email addresses are requested to register their e-mail address with respective Depository participants and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with companie Registrar and transfer agent Bigshare services Private Limited nvestor.del@bigshareonline.com to receive the copies of Annual Report 2024-25 along with the Notice of 42nd AGM.

In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Question (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Download ections of https://lvote.bigshareonline.com or contact Bigshare Services Private Limited at the following toll free no.: 011-42425004

Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting: Ms. Radha Shakti Garg, Company Secretary, Registered Office - 18, Pusa Road, First Floor, Karol Bagh, New Delhi-110005. Telephone Number:

10. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Listing Regulations the Register of members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September 2025 to 30th September 2025 (both days inclusive) for the purpos ofAGM.

For AMD INDUSTRIES LIMITED

E-AUCTION

SALE NOTICE

Radha Shakti Garg Place: New Delhi, India Date: 05 00 2025 Company Secretary

ABN INTERCORP LIMITED

CIN: L55101DL2005PLC140406 Regd. Office: F-01, TDI Centre, Jasola, New Delhi New Delhi New - 110025 IN Ph: 011-4132 4180 Mail Id: abncompliance@gmail.com website: www.abnintercorp.com NOTICE OF 20™ ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE otice is hereby given that:

The 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 30th September, 2025 at 2:00 P.M. at the Registered Office at F-01, TDI Centre, Jasola, New Delhi New Delhi-110025, to transact the Business as set out in the Notice of AGM. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companie (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Rules, 2015, the Registrar of Members and Share Transfer Book of company will remain closed from Friday, 26th September 2025 to Tuesday, 30th September, 2025 (Both Days Inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the company to be held on Tuesday, 30th September, 2025 for the financial year ended on 31 March, 2025.

For, A B N Intercorp Limited Mr. Ajai Kumar Rastogi

Date: 05/09/2025 Place : New Delhi

Managing Director DIN:00322447 बीएलटी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (पूर्व में बीएलटी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड)

सीआईएन: U63000DL2011PLC224622 पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 304, A/2, ख-14/20/1, प्रथम तल, पटेल गार्डन, काकरोला, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली – 110078 ईमेल: info@bltlogistics.com | संपर्क: +91-11-35454842

सदस्यों के लिए सार्वजनिक सूचना – 14वीं वार्षिक आम बैठक (AGM)

यह सचित किया जाता है कि बीएलटी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की 14वीं वार्षिक आम बैठक (AGM ांगलवार, 30 सितम्बर 2025 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (OAVM) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यव नहीं होगी। यह बैठक कंपनियों अधिनियम, 2013, सेबी (LODR) विनियम, 2015 तथा एमसीए एव सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनरूप आयोजित की जा रही है।

विनीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट एवं AGM नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यम र भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्टार एवं टांसफर एजेंट (RTA)/डीपी के साथ पंजीकृत हैं। यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.bltlogistics.com, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com ाथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।

सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (AGM से पूर्व) और ई-वोटिंग सविधा (AGM के दौरान) के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान करने की सविधा प्रदान की जाएगी। जो सदस्व AGM से पर्व रिमोट ई-वोटिंग करेंगे. वे AGM में VC/OAVM के माध्यम से भाग ले सकते हैं. किंत AGM में पनः मतदान नहीं कर सकेंगे।

यदि किसी सदस्य का ईमेल पता अभी तक पंजीकृत नहीं है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपने डीपी से संपर्क कर ईमेल पते को पंजीकृत कराएँ।

बीएलटी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की ओर से दिनांक: 05 सितम्बर 2025

स्थान: नई दिल्ली

रमा कनोजिय कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

भवदीय



एचपीएल इलेक्ट्रिक एण्ड पावर लिमिटेड सीमाईएन: L74899DL1992PLC048945 सीआईएन: L74899DL1982P_C048945 पंजीकृत कार्यातयः 1/20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली 110 002 दूरमाबः +91-11-23234411, फैक्सः +91-11-23232639 इं-मेलः hplcs@hplindia.com, वेबसाइटः www.hplindia.com

33वीं वार्षिक आम बैठक और रिकार्ड तिथि की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसव अधीन बनाएँ गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 एवं 10/2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, 9/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 एवं 08/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 और सेबी परिपन्न दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023, 7 अक्टूबर, 2023 एवं सेबी परिपन्न सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (संयुक्त रूप से "संगत परिपत्न" के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में ई-एजीएम में आमंत्रण के लिए एजीएम की सूचना दिनांक 13 अगस्त, 2025 में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 29 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11.30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी ।

संगत परिपत्रों के अनुपालन में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को 5 सितम्बर, 2025 को भेज दी गई है जिनके ई—मेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पंजीकृत हैं। सही पथ सहित वेब-लिंक जहां वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरघारकों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.hpindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई एवं बीएसई) की वेबसाइट तथा केफिन टेक्नोलॉजीज लि. ("केफिन") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होंगे।

. कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के साथ संगत परिपत्रों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक-2 के अनुपालन में शेयरधारकों के पास इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज पर रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम दौरान वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने का अवसर होगा। कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से अपना वोट देने एवं वीवी/ओएवीएम सुविधा के नाध्यम से 33वीं एजीएम में शामिल होने सहित एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के माध्यम से अपन वोट देने की सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन की सेवाएं ली हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से शामिल होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों एवं जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के आयोजन की सूचना में दी गई है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश भी एजीएम की सुचना में दिये गये हैं।

रिमोर्ट ई-वोटिंग प्रक्रिया एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री दीपक कुकरेजा एवं श्रीमती मोनिका कोहली, पार्टनर्स, डीएमके एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को क्रमशः संवीक्षक एवं वैकल्पिक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

 रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण हेत् कट—ऑफ तिथि 22 सितम्बर, 2025 है।

2. रिमोट ई—वोटिंग अवधि 26 सितम्बर, 2025 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और 28 सितम्बर, 2025 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2025 को शेयर धारण करता है, वह कंपनी की वेबसाइट www.hplindia.com एवं केफिन वेबसाइट "https://evoting.kfintech.com" दोनों में उपलब्ध सूचना में वर्णित रिमोट ई—वोटिंग के लिए दिशानिर्देशों का पालन करके लॉगइन आईडी/ यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुका सदस्य भी बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदल नहीं सकते हैं।

5. सदस्यों का वोटिंग अधिकार 22 सितम्बर, 2025 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ^{हे} उनकी शेयरधारिता के आनुपातिक होगा।

 रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं देने वाले एवं एजीएम में उपस्थित सदस्यों के लिए एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

. ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा

तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के योग्य होंगे। रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत / पूछताछ के लिए कृपया

ीजजचेरुध्ध्यअवजपदहणपिदजमबीण्बवज पर उपलब्ध सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का अवलोकन करें या निम्नलिखित से सम्पर्क करें: नामः श्री नागेश्वर राव पदनामः वरिष्ठ प्रबंधक

पताः केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गोचीबाउली, हैदराबाद–500 032 टोल फ्री नं. 1800.345.4001 ई-मेल: evoting@kfintech.com

वेबसाइटः www.kfintech.com **—मेल पता पंजीकरण/अप**केट करने की प्रक्रियाः

अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता, बैंक खाता विवरण तथा अन्य केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए संगत फॉर्म कंपनी के आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लि. ("केफिन टेक"), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल

डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद—500 032 के पास जमा करें।

क) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना केवाईसी विवरण

ख) डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध हे कि वे अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास इसे पंजीकृत / अपडेट कराएं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी ने लाभांश की पात्रता की जांच और भुगतान के उद्देश्य से 22 सितंबर, 2025 रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित की है।

. समेकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ एजीएम का वोटिंग परिणाम सांविधिक समय—सीमा के अनुसार घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.hplindia.com स्टॉक एक्सचेंज यथा www.bseindia.com and www.nseindia.com तथा केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।

स्टॉक एक्सचेंज यथा www.bseindia.com and www.nseindia.com तथा केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।

> निदेशक मंदल के आदेशानस कृते एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड विवेक कुमार कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Gënus जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

(पंजीकृत कार्यांलयः जी-123, सेक्टर-63, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश) (फोन: +91-0120-2581999) ई-मेलः cs@genus.in, चेबसाहटः www.genuspower.com) (CIN: L51909UP1992PLC051997)

33वीं वार्षिक साधारण सभा तथा ई–वोटिंग की सूचना

तद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम सभा (''प्जीएम'') मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 को प्रात: 11:00 बर्जे (भारतीय समयानुसार)वीडियों कॉन्फ्रोसिंग(''वीसी'')अथवा अन्य ऑडियों विजुञल माध्यामों (''ओप्वीएम'') वैषा के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपाल में, कॉपोरेट मामलों के मंत्रालय एवं सेबी द्वारा जारी उपयुक्त सर्क्युलरों (''उपयुक्त सर्क्युलरों'') के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में दी गई कार्यवाही को पूरा करने हेतु निर्वारित की गई है। सदस्य, एजीएम के नोटिस में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करके, एजीएम के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिन यहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

ग्यक्त सर्क्यलरों के अनसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचन और वार्षिक रिपोर्ट, 05 सितम्बर 2025 को कंपनी के उन सभी सरस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल पत क्रम्पनी∕रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट(''आरटीए'')∕डिपोंजिटरी पार्टिसिपेंटस∕ डिपोंजिटरीज के पार पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की चेबसाइट 'www.genuspower.com' सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसल''/CDSL) की चेबसाइट www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindla.com और www.bseindla.com पर भी उपलब्ध हैं इसके अतिरिक्त, सेबी (सुर्चीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूर्चीबद्धता विनियम) को विनियमन 36(1)बी को अनुसार, कंपनी द्वारा उन शेयरबारकों को पत्र भेजा है, जिनकी इंमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है, जिसमें कंपनी की वेबसाइट का वेब लिंक प्रदान किया गया है, जहाँ से 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट व एजीएम की सूचना देखी जा सकती है।

कट ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025 को शेयर घारित करने वाले सदस्य, वार्षिक आम सभा की सूचना में बताए गए अनुसार, रिमोट ई-बोटिंग या वार्षिक आम सभा के दौरान ई-वोटिंग कं माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से अपना बोट दे सकते हैं ।ई-बोटिंग अथवा एजीम में शमिल होने की विस्तृत प्रक्रिया या निर्देश के नोटिस में दिए गए हैं। इस संबंध में, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:-

दुरस्थ ई-बॉटिंग की अवधि शनिवार, 27 सितम्बर, 2025 प्रातः 9 बजे (भारतीय मानक समय) से प्रारम्भ होकर सोमवार, 29 सितम्बर, 2025 सार्व 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) क

समाप्त होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

29 सितम्बर, 2025 को सार्य 05:00 बजे (आईएसटी) के बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारारिमोटई-वोटिंगको निष्क्रियकर दिया जाएगा।

एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी सदस्य के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके मतदान करना अनिवार्य नहीं है । सदस्यों के पास एजीएम में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यर से वोट डालने का भी विकल्प है। सदस्य मतदान का केवल एक ही माध्यम का विकल्प चुन सकत

है। जिन सत्स्यों ने पूजीएम से पहले दूरस्थ है-बोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वह पूजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से उर्हे अपना वोट डालने का हक नहीं होगा। केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात मंगलवार 23 सितम्बर, 2025 को न्दस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वेटिंग के साथ-साथ वार्षिक आम सभा (एजीएम) के दौरान ई-वेटिंग सुविधा क लाभ उठाने का हकदार होगा।वह व्यक्ति जो उक्त कट-ऑफ तिथि के दिन सदस्य नहीं है, वह इस

नाटित एवं एजेप्पस के नोटिस को केवल जानकारी हेतु ही उपयोग मे ले । नोटित एवं एजेप्पस के नोटिस को केवल जानकारी हेतु ही उपयोग मे ले । वे सदस्य, जो भौतिक रूप में शेयर बारण कर रहे हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने इंमेल पर्त पंजीकृत नहीं किए हैं, वे एजीएस के नोटिस में उल्लेखित प्रक्रियाओं /निर्देशों का पालन करके एजीएम के दौरान हैं-बॉटिंग या है-बॉटिंग प्रणली के माध्यम से अपना बोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपनी इंमेल पंजीकृत नहीं की है या जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम का नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर अधिग्रहण किया है और जो कट-ऑफ तिथि, यानी मंगलवार,

23 सितम्बर 2025 को शेयर धारण करना जारी रखतें है, वे ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचन में दिए गए निर्देशों के अनुसार यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त/क्रपन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति/सदस्य पहले से ही ई-बोटिंग के लिए सीडीएसएल(CDSL)/ एनएसडीएल(NSDL) के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर अपना बोट डाल् सकता है। सदस्य ईं-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को अपने डीमैंट

खातों में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी अपडेट करने की सलाह दी जाती है । वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित है और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका . नहीं गया है, वह एजीएम के दौरान भी उपलब्ध ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र हाँगे।

वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना में शामिल माना जाएगा । यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध

में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख

सकते हैं या टोल फ्री नं. 18002109911 पर संपर्क कर सकते हैं। इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश देलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल, सेंट्रल हिपॉजिटरी सर्थिसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराबन प्रयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल(पूर्व), मुंबई – 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com, पर भेजाजा सकता है या टोलफ्री नं. 18002109911 पर संपर्क किया जा सकता है।

कम्पनी ने श्री संदीप जैन (सदस्यता संख्या एफसीएस 5998, सीपी संख्या 4151) और ठनकी अनुपरिखति में सुश्री लता ज्ञानमलानी (सदस्यता संख्या एफसीएस 10106, सीपी नं. संख्या 9774), मैसर्स एआरएमएस एण्ड ऐसोसिऐटस् एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, जयपुर व साझदारों को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके रिमोट ई-बोटिंग प्रक्रिया में मतदान की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक: 05 सिम्बर, 202**5** यह सूचना अंग्रेजी का हिंदी रूपान्तरण है। कृते जीनस पावर इन्फ्रास्ट्विचर्स लिमिटेड पूरन सिंह राठौड़ संयुक्त कंपनी सचिव

PAISALO PAISALO DIGITAL LIMITED REGO. OFF: CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019

TEL: +91 11 43518888 WEB: www.paisalo.in CIN: L65921DL1992PLC120483 EASY LOAN आसान लोन 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना,

पुस्तिका बंदी एवं ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

दिनांक 2 सितंबर, 2025 को प्रकाशित हमारी सूचना कि निरन्तरता में एतद द्वारा सूचित किया जाता

पैसालो डिजिटल लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की उर्श्वी वार्षिक आम बैठक ("आम बैठक") सोमवार 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंस / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की लागू प्रावधानों के अनुरूप और इसके तहत बनाए गए नियमों तथा कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांकि 8 अप्रैल. 2020: 13 अप्रैल. 2020: 5 मर्ड. 2020: 17 अगस्त. 2020: 13 जनवरी. 2021: 8 दिसंबर. 2021 14 दिसंबर, 2021; 5 मई, 2022; 28 दिसंबर, 2022; 25 सितंबर, 2023; 19 सितंबर, 2024 ("एम सी परिपन्न'') और उसके बाद जारी किसी भी अपडेट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सोबी'' (सूची दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 ("सोबी (एलओडीआर) विनियमन'') व अन्तर्गत सेबी द्वारा जारी परिपन्न दिनांकित 12 मई, 2020; 15 जनवरी, 2021; 5 जनवरी, 2023 7 अक्टूबर, 2023; 3 अक्टूबर, 2024 तथा 5 जून, 2025, ("सेबी परिपन्नो ") के अनुरूप बिना सदस्यों की भौतिक जाफ्रिति के एक प्राप्ताना कात एर आगोजित की जा रही है। आप बैटक की प्रचान ("प्रचाना" जिसे आम बैठक से पहले सदस्यों को भेज दिया जायेगा. में उल्लेखित व्यवसायों पर 33वीं वार्षिक आम बैठक में विचार किया जायेगा।

अधिनियम की धारा 101 और 136 व अधिनियम के अधीन जारी किये गये नियमों तथा उपरोक्त एम.सी.ए. परिपनों और सेबी परिपनों के अनुसार, वित्तीय वर्ष ("वित्त वर्ष") 2024—25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है, जिनका ई—मेल पता कंपनी / रजिस्टार औ शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आर टी ए") / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) ("डीपी") के साथ पंजीकृत है। इसके अलावा, सेबी नोटिफिकेशन नः सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/218 दिनांकित 12 दिसंबर 2024 के प्रावधानों के अनसार, वित्त वर्ष 2024—25 के लिए सचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए वेबलिंक प्रदान करने वाला भौतिक पत्र उन सदस्यों को भेज दिया गया है, जिन्होंने अपना ईमेल पता

सदस्य ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना कंपनी की वेबसाइट www.paisalo.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑप इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एन एस डी एल") पर https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

अधिनियम की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 42, कंपनी का सदस्य रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर पुरितका मंगलवार. 23 सितंबर. 2025 से सोमवार. 29 सितंबर. 2025 तक बंद रहेगी। सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को वार्षिक आम सभा में प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट डालने व लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिये कट—ऑफ / रिकॉर्ड तिथि माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 108 व सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 44 व उपरोक्त एम.सी.ए. परिपत्री और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त "रिमोट ई—वीटिंग" सुविध उपलब्ध होगी ताकि वे आम सभा की सुचना में उत्तिखित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डाल सकें। 22 सितंबर, 2025 (कट-ऑफ तिथि) को अंश रखने वाले प्रत्येक सदस्य को प्रति शेयर एक वोट क

अधिकार होगा। 33वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई—वोटिंग में भाग लेने या ई—वोटिंग प्रणाली में माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया की जानकारी नोटिस में दे दी गई है। निया से पार अपिक शुक्रवार, 28 सितंबर, 2025 प्रातः 900 बजे से रिवेशर, 28 सितंबर, 2025 सार्य 500 बजे तक रहेगी। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा इसके उपरान्त बन्द कर दिया जायेगा। सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा, आम् समा से पहले, अपना वोट डाल दिया है भी आम समा में

उपस्थित हो सकते है परन्तु वे आम सभा के दौरान वोट डालने के लिये सक्षम नहीं होगें। सोमवार, 22 सितबंर, 2025 को शेयर रखने वाले सदस्यों को 33वीं वार्षिक आम बैठक में केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने और सुचना में दिए गए प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्य की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

वे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं या जिन्होंने कंपनी / आरटीए / डीपी के पास अपना **ई**—मेल पता पंजीकत नहीं कराया है या कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बना है और कट—ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वे ई—वोटिंग के माध्यम से या नोटिस में निर्धारि तरीके से एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। वे व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि (22 सितंबर 2025) को कंपनी के शेयर धारण नहीं करते हैं वे इस सचना को केवल जानकारी हेत समझें।

जिन सदस्यों ने कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

अमौतिकीकृत अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ईमेल पत घारण

भौतिक धारण

इक्विटी शेयरधारकों के लिए, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रा एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ निर्धारित फॉर्म ISR-1 और अन्य की वेबसाइट https://www.paisalo.in/home/investorrelation प निवेशक सेवा अनुरोध अनुभाग के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड भी देख

ramap@alankit.com খাঁব sandeep.srivastva@alankitassignments.com দ मेसर्स अलंकित असाइनमें द्स लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स सतीश जादौन एण्ड एसोसियट्स के श्री सतीश कुमार जादौन, (ICSI Membership No. F9512) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान प्रक्रिया के लिए सवंक्षक नियक्त किया है।

12. ई-वोटिंग संबंधी किसी भी प्रश्न हेतु www.evoting.nsdl.com, के FAQ सेक्शन देखें या evoting@nsdl.com, पर ई-मेल करें या 022-4886 7000 / 022-2499 7000 पर कॉल करें वास्ते पैसालो हिजिटल लिमिटेह

(मनेन्द्र सिंह)

कम्पनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : सितम्बर 05, 2025

एम. नं. ए1849[.]

Place: Bhubaneswar, Date: 05.09.2025

The remote e-voting period commences on 24.09.2025 (09:00 A.M.) and end or

- श्री बलदेव राज भाटिया (DIN: 00047573) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, की पुनर्नियुक्ति पर
- श्री मनोज मेहरा (DIN: 00236146) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, की पुनर्नियुक्ति पर विचार

मनीष कुमार अरोड़ा निदेशक

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 04.09.2025

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L74899DL1991PLC062744 पंजीकृत कार्यालयः 202, दूसरी मंजिल, विक्रमादित्य टावर, अलकनंदा मार्केट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 । दूरभाषः 0129-4282375 र्ड-मेलः cs@spllimited.com, वेबसाइटः www.spllimited.com

34वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत गठित नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीकरण बाध्यताएँ तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियमों) के लागू सभी प्रावधानों के साथ पठित कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ("एमसीए") तथा सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों (जिसे सामृहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" कहा गया है) के अनुपालन के तहत वीडियो काँफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजूअल साधनों ("ओएवीएम") के जरिए एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (CIN: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 34वीं वार्षिक . साधारण बैठक सोमवार. 29 सितम्बर, 2025 को पर्वाहन 11.00 बजे आयोजित होगी। सदस्यग https://emeetings.kfintech.com पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो पाएंगे। परिपत्रों के अनुपालन के तहत. एजीएम सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपियां उन सभी सदस्यों को भेजे दिए गए हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्री)/ कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। ऊपर उल्लेखित दस्तावेर कंपनी की वेबसाइट <u>www.spllimited.com</u>, एक्सचेंज की वेबसाइट यानी <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> तथा पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) यानी केफिन टेक्नोलॉजि

लिमिटेड की वेबसाइट यानी <u>https://evoting.kfintech.com</u> पर भी उपलब्ध हैं। सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन सदस्यों को एक पत्र भेज रही है जिनका ईमेल पता आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(1) के पास पंजीकृत नहीं है, जिसमें वेबलिंक और क्यूआर कोड और कंपनी की वेबसाइट का सटीक पथ प्रदान किया गया है, जहां से वित्त वर्ष 2024 25 का वार्षिक प्रतिवेदन देखा जा सकता है।

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन तथ प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन के तहत कंपनी यह सूचित करते हुए हर्ष महसूस कर रहीं है कि कथित बैठक में चर्चा होने वाले सभी पहलुओं पर मत प्रदान करने के लिए कंपनी अपर सभी शैयरवारकों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रवान कर रही है। कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रवान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (केफिन) की सेवाएं नियक्त की है। सदस्यों से ई-बोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग (वोट डालने के लिए) के तरीके सम्मिलित निर्देशाविलयों का अनुशरण करने का अनुरोध किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण एजीएम जन्नेखित है।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा केवल वहीं सदस्य, जो एजीएम में उपस्थित रहेंगे एवं प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाले हैं तथा ऐसा करने से जिन पर पाबंदी नहीं लगी है सिर्फ वे ही एजीएम के दौरान वोट डालने के

ईमेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने के लिए उन्हीं लॉगइन अनशंसापत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे वार्षिक साधारण बैठक की सूचना की टिप्फणी में दिए गए निर्देशों का पालन कर लॉगइँन अनुशंस सुजित कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख एवं समयः 25 सितंबर, 2025, सुबह 10.00 बजे

रिमोट ई-वोटिंग की अंतिम तारीख एवं समयः 28 सितंबर, 2025, अपराहन 05.00 बजे

 28 सितंबर, 2025 को अपराह्न 05.00 बजे के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएग वह व्यक्ति, जिसका नाम अंतिम तिथि अर्थात सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को सदस्यों/लाभार्थी स्वत्याधिकारी के रजिस्टर में वर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग अथवा वार्षिक साधारण बैठक में मागीवारी स्वत्वाधकारी क राजस्टर में वर्ज है, कवल स्मिट हु-वादिन अखवा वाविक साधारण बठक में मानावारी और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाम उठाने का हकदार होगा। वह व्यक्ति, जो वार्षिक साधारण बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि तक शेयर रखता है, वह वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया का पालन कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, जो कंपनी की वेबसाइट और केफिन की

ऐसे सदस्य, जिन्होंने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चके हैं वे वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं ई-बोटिंग के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर अथवा वीसी/ओएवीएम द्वारा भागीदारी के लिए रूपाटिन के राच्ये ने किसी नो एक करने हुन ने से जबने कार्याजार्श्वार्य होरा ने नोचित के छिए तकनीकी सहायता हेतु स्वस्थागण श्री सुरेश बाबू, केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिग्टिंड के अधिकारी से टोल फ्री नं. 1800-345-4001 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा <u>suresh.d@kfintech.com</u> पर

लिख सकते हैं एवं http://evoting.kfintech.com (केफिन येबसाइट) के डाउनलोड सेक्शन मे

उपलब्ध हेल्प एवं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वैश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं

वेबसाइट पर उपलब्ध है।

स्थान – फरीदाबाद विनांक - 05 सितंबर, 2025

रिमोट ई-वोटिंग का विवरण निम्नानुसार हैं -

Phone.: 7978917319, 8660127427, 9938418396

ASSET RECOVERY BRANCH, CUTTACK

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank STATIONED AT - Ground Floor, FGMO Office, M-14, Housing Board Colony, Baramunda, Bhubaneswar - 751003, Odisha

APPENDIX - IV - A [See Proviso to rule 8 (6)] Sale Notice for Sale of Immovable Properties E-Auction Sale Notice for Sale of Immovbale Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with provision to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable ed/charged to the Secured Creditor, the Possession (Symbolic/Physical) of which has been taken by the **Authorised** Officer of Union Bank of India (Erstwhile Corporation Bank and Andhra Bank), ARB Cuttack, (Secured Creditor), will be sold

on "As is where is" "As is what is" and "whatever there is " on 26.09.2025 (Date of Sale) for recovery of dues as mentioned here

under to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and Earnest Money Deposit

कृते एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता/

विशाल श्रीवास्तव

कंपनी सचिव

are	are also mentioned hereunder .				
SI. No.	Name & Address of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Details of the Property to be Auctioned	Amount Dues	Reserve Price / EMD / Bid Increment	
1.	Borrower/Guarantor: (1)M/s Trimurti Multi Projects Pvt Ltd., Address: Plot No.61, Bapuji Nagar, Bhubaneswar-751009, and Sarafa Bazar, Hapur, Dist: Gazhiabad, Uttar Pradesh - 245101, (2) Sri Rajeev Kumar Verma, (3) Smt Savita Verma, (4) Sri Dinesh Kumar Verma, all are address at Sarafa Bazar, Hapur, Dist: Gazhiabad, Uttar Pradesh - 245101.	All the piece and parcel of Shop Nos 5 Shops at FF 102,104,105,106,107 having 317 sq.ft & 4 shops at 2nd Floor Nos 202, 203, 204 & 204(A) having 249 sq.ft. at part property No. 1697, Kutcha Jatmal, Ward No. IV, Dariba Kalan Gali, Chandni Chowk, Delhi-6 fvg M/s Trimurti Multi projects Pvt Ltd Commercial freehold built up one shop at ground floor without roof rights, having super covered Area measuring 70 Sq.ft., built on the part of plot bearing no. 1697 (Part), out of the GF+3 Storied building, situated at the Kucha Jatmal, Dariba Kalan, Ward No. IV, Chandni Chowk, Delhi -110006 in the name of Mr Rajeev Kumar Verma, Surrounded by: North- Kutcha latuu shah, South: Gali, East: Plot No.1698, West: Entrance .	Rs.8,88,92,483/- as on 30.06.2025 + further interest & expences thereon	Rs.22,64,000/- / Rs.2,26,400/- / Rs.22,640/-	
2.	Borrower/Guarantor: (1)M. Trimurti Jewellers, Address: Pl. No.61, Bapuji Nagar, Bhubaneswa 751009, and Sarafa Bazar, Hapur, Dis Gazhiabad, Uttar Pradesh-245101, (Sri Rajeev Kumar Verma, (3) Sn Savita Verma, (4) Sri Dinesh Kum. Verma, all are address at Sarafa Baza Hapur, Dist: Gazhiabad, Uttar Prades - 245101.	Commercial freehold property, First floor private shop no.101, Area measuring 36.63 Sq.mt or 394 Sq.ft. and Second floor shop nos-201, 205, 206 & 207 without roof rights, having super covered area measuring 53.78 Sqmt or 579 Sq.ft., total covered area is 394+579=973 Sq.ft., built on the part of plot bearing no. 1697, out of the GF+3 Storied building, situated in the Kuchar Jatmal, Dariba Kalan, Ward no. IV, Chandni chowk, Delhint, 110006 in the name of Mr Rajiv Kumar Verma , S/o: Amarnath	Rs.14,23,34,719/- as on 30.06.2025 + further interest & expences thereon	Rs.28,92,000/- / Rs.2,89,200/- / Rs.28,920/-	

Date & Time of E-Auction: 26.09.2025 from 12.00 Noon to 5.00 P.M.

(with 10 minutes unlimited auto extension), E-Auction Website: https://baanknet.com Last date & Time for submission of EMD: EMD shall be deposited and Linked/Map the EMD amount with the property ID before End Time of Auction

> Date & Time of Inspection of Property for intending purchasers: 25.09.2025 Details of encumbrances over the if any: NIL

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the website:

https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx and www.unionbankofindia.co.in STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) / RULE 9(1) OF STATUTORY INTEREST (ENFORCEMENT)RULES 2002

This may also be treated as notice u/r 8(6) / Rule9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date

Sd/- Authorised Officer, Union Bank of India

स्थानः कुन्डली दिनांकः 05 सितम्बर, 2025